

	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	
सत्यमेव जयते	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, केंद्रीय कर भवन सातवी मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	7 th Floor, GST Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
☎ : 079-26305065		टेलिफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(ST)/194/Ahd-I/2017-18 **11676 - 1680**
Stay Appl.No. NA/2017-18

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. **AHM-EXCUS-001-APP-389-2017-18**
दिनांक Date : **15-03-2018** जारी करने की तारीख Date of Issue **22.3.2018**

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. **CGST-VI/Ref-60/Flamingo Transworld/17-18** दिनांक:
18/12/2017 issued by Assistant Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Flamingo Transworld Pvt.Ltd
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिके आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा.35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मेटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Flamingo Transworld Pvt. Ltd., 201/202, Gala Business Centre, St. Xavier Collage Road, Near Classic Gold Hotel, C.G. Road, Ahmedabad-380009(in short 'appellant') against Order-in-Original No.CGST-IV/Ref-60/Flamingo Transworld/17-18 dated 18.12.2017 (in short 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, CGST Division-VI(Vastrapur), Ahmedabad Squth (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that the appellant filed refund claim of Rs.23,75,188/- on the ground of mistakenly/wrongly paid as service tax which was rejected by the adjudicating authority under section 11B of the Central Excise Act, 1944 as made applicable to section 83 of the Finance Act, 1994 vide impugned order for non-compliance of details/documents asked for by the adjudicating authority vide letter dated 02.12.2017.

3. Aggrieved with the impugned letter, the appellant filed the present appeal wherein, *inter alia*, submitted that

- Principle of natural justice have been grossly violated.
- The adjudicating authority was required to ascertain whether they had discharged correct tax liability for May-2017 or not and whether there was any excess payment made for May-2017 though they had provided all the documents for the relevant period i.e April to June-2017 and failed to appreciate the facts contained in ST-3 return filed on 28.08.2017.
- The adjudicating authority's biased approached is clearly reflected in the impugned order since their letters dated 17.11.2017 and 24.11.2017 duly complied with which is relevant to the said refund claim do not find mention in the impugned order. Instead information called for last three FY vide letter dated 05.12.2017 which is not relevant for disposal of claim finds mention in the impugned order.
- The refund claim is illegally and unduly rejected without going into merits of the case.
- Service tax is leviable on service provider on the value of taxable service provided for consideration. Taxable event is completed when the service provider has rendered taxable service. However, the liability to pay tax is clearly provided under Rule 6 of the Service Tax Rules, 1994. They had deposited the excess payment inadvertently in credit of govt. without providing any service. This is not correctly appreciated by the adjudicating authority on the facts and the law applicable in such facts.
- The impugned order has not correctly appreciated the essential ingredients required to deal with refund application. When they claim it to be inadvertent excess deposit in govt. account, it is not open for the adjudicating authority to ascertain whether any short payment of service tax, if any, exists or not. For determining short payment of service tax there is totally different set of procedure for inquiry and demand under section 73 of the Finance Act, 1994. However, it is not open for the adjudicating authority to open an inquiry under section 73ibid while disposal of the refund claim.


4. Personal hearing in the matter was held on 13.03.2018. Shri P.P. Jadeja, Authorized Representative, appeared on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal and submitted that challans and other documents to be submitted within 7 days.



5. I have carefully gone through the appeal memorandums, submission made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the main issue to be decided is whether the impugned order rejecting the refund claim is just, legal and proper or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits:

6. Prima facie, I find that the appellant had filed the refund claim of mistakenly/wrongly paid service tax to govt. account in cash for the month of May-2017 as evident from the ST-3 return filed. I find that as per the standing instruction for speedy disposal of refund claim a single deficiency memo is required to be issued highlighting all deficiency/documents required for scrutiny of refund claim. I find that in the instant case the adjudicating authority has issued three deficiency memos dtd. 17.11.2017, 24.11.2017 and 05.12.2017 asking the appellant to comply within 5 days. I also find that the appellant complied/fulfilled with reference to deficiency memo dated 17.11.2017 and 24.11.2017 vide letter dated 18.11.2017 and 29.11.2017 respectively. I find that the deficiency memo issued on 05.12.2017 is totally vague and irrelevant with reference to subject refund claim and appears to have been dispatched on 09.12.2017 and the impugned order is passed on 19.12.2017. Further, the compliance to deficiency memo dtd. 17.11.2017 and 24.11.2017 filed by the appellant vide letter dated 18.11.2017 and 29.11.2017 respectively do not find any mention in the impugned order and the claim is rejected on flimsy ground that the appellant failed to comply with the deficiency memo dated 05.12.2017 and without giving personal hearing i.e. natural justice to the appellant. The evidences available on records clearly indicates the appellant has claimed refund of mistakenly/wrongly paid service tax to the govt. account in cash for the month of May-2017. Under the circumstances, I remand the case back to the adjudicating authority to decide a fresh after following the principle of natural justice within 30 days of communication of this order.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.




(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Dt. 15.03.2018

Attested:




(B.A. Patel)

Supdt.(Appeals)

CGST, Ahmedabad.

BY SPEED POST TO:

M/s. Flamingo Transworld Pvt. Ltd.,
201/202, Gala Business Centre,
Near Classic Gold Hotel, C.G. Road,
Ahmedabad-380009



Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone.
- (2) The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South (RRA Section).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST, Division-VI(Vastrapur), Ahmedabad South.
- (4) The Asstt. Commissioner(System), CGST, HQ, Ahmedabad South.
(for uploading OIA on website)
- ✓(5) Guard file
- (6) P.A. file.

